

## भारत के प्रमुख जलप्रपातों के नाम, सम्बंधित नदी और ऊंचाई की सूची

भारत के प्रमुख जलप्रपातों के नाम एवं ऊंचाई

जलप्रपात किसे कहते हैं?

**जलप्रपात शब्द से साधारणतः**: पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। प्राचीन समय से ही प्रपातों से अनेक लाभ उठाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम प्रपातों द्वारा पनचक्की चलाने का प्रचलन हुआ। पर्वतीय प्रदेशों में पनचक्कियाँ विशेषकर जलप्रपातों द्वारा ही चलती हैं और लोग पनचक्कियों द्वारा ही पिसाई करते हैं। जब नहरों का निर्माण हुआ तब जलप्रपातों पर पहले पनचक्कियाँ ही स्थापित की गईं, जिससे सिंचाई के अतिरिक्त आटा पीसे जाने की सुविधा हो सके। फिर जब पनबिजली का विकास हुआ तब जलप्रपातों पर पनबिजली बनाने के लिये बड़े बड़े यंत्र लगाए जाने लगे।

जलप्रपातों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है:

- प्राकृतिक जलप्रपात
- कृत्रिम जलप्रपात

**1. प्राकृतिक जलप्रपात किसे कहते हैं?**

प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। वर्षा ऋतु में तो छोटे बड़े जल-प्रपात प्रायः सभी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, कूछ क्षेत्रों में, भू-स्तर तुलनात्मक तौर पर कठोर और नरम होने के कारण, बहते पानी से कटाव द्वारा भूतल में एक ही स्थल पर गिराव पैदा हो जाता है और कहीं-कहीं सामान्य समतल क्षेत्रों में भी जलप्रपात प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। पृथकी के गुरुत्व द्वारा प्रेरित होकर पानी का वेग जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे ही उसके भू-स्तर के कटाव की क्षमता बढ़ती जाती है और प्रपात बड़ा होता जाता है। यह क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कुछ प्राकृतिक संतुलन न हो जाए, और प्रपात के विस्तार में स्थिरता नहीं आ जाती है।

**2. कृत्रिम जलप्रपात किसे कहते हैं?**

कृत्रिम प्रपात बहुधा नहरों पर बनाए जाते हैं। जहाँ नहरें यातायात के लिए बनी होती हैं, वहाँ पानी के वेग को कम करने के लिये प्रपात बनाए जाते हैं और नावों का आवागमन लॉकों द्वारा हुआ करता है। कभी-कभी नदियों में भी ऐसे लॉक बनाए जाते हैं। भू-सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों में भी जलप्रपात इसीलिए बनाए जाते हैं कि पानी का वेग कम किया जा सके। ऐसे बहुत से प्रपात उत्तर प्रदेश की गंगा तथा शारदा नहरों पर बनाए गए हैं। अन्य प्रदेशों की नहरों पर भी जलप्रपात बनाए जाते हैं। आइये जानते हैं भारत का कौन-सा जलप्रपात कहाँ स्थित है:-

भारत के प्रमुख जलप्रपातों के नाम एवं ऊंचाई की सूची:

जलप्रपात का नाम	किस नदी पर स्थित है	ऊंचाई (मीटर में)
महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात	शरावती नदी	255
येना जलप्रपात	महाबलेश्वर के समीप नर्मदा	183
शिव समुद्रम्	कावेरी नदी	98
गोकक जलप्रपात	कृष्णा की सहायक गोकक	55
पायकारा जलप्रपात	नीलगिरि क्षेत्र	-

जलप्रपात का नाम	किस नदी पर स्थित है	ऊंचाई (मीटर में)
चूलिया जलप्रपात	चम्बल नदी	18
पुनासा जलप्रपात	चम्बल नदी	12
मधार जलप्रपात	चम्बल नदी	12
बिहार जलप्रपात	नर्मदा नदी	10
धुआंधार जलप्रपात	नर्मदा नदी	10
हुंडरू जलप्रपात	स्वर्णिखा नदी	-
कुंचीकल जलप्रपात	वाराही नदी	455
बरईपानी जलप्रपात	बुधाबलंगा नदी	399
लांगशियांग जलप्रपात	किशी नदी	337
नोहकालिकाई जलप्रपात	-	340
दूधसागर जलप्रपात	मांडोवी नदी	310
मीनमुट्ठी जलप्रपात	कल्लर नदी	300
थलियार जलप्रपात	-	297
बरकाना जलप्रपात	सीता नदी	259
वसुधारा जलप्रपात	अलकनंदा नदी	-
किलियूर जलप्रपात	किलियूर नदी	-
चित्रकूट जलप्रपात (न्याग्रा जलप्रपात)	इंद्रावती नदी	90 फुट
चचाई जलप्रपात	बीहड़ नदी	130